

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

26 अप्रैल 2019

जामिया में सतत विकास लक्ष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग और पॉलिसी स्टडीज एंड एडवाकेसी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में आए विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक सतत विकास पाने के लक्ष्यों को लागू करने में गति लाने पर जोर दिया। हालांकि कई ने इस बात पर आशंका जताई कि सतत विकास लक्ष्य की घोषणा होने के बाद उसे पाने के अपर्याप्त प्रयासों से इसमें विलंब हो सकता है।

इस संगोष्ठी में निति आयोग, आक्सफॉम, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली, सेंटर फॉर बजट ऐन्ड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, आईसीआरआईआईआर, बीएआरसी जयपुर, एएआरडीओ और कई अन्य संस्थाओं ने हिस्सा लिया।

इसमें 100 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं, विकास कार्यों में लगे लोगों, मीडिया कर्मियों और युवा नेताओं ने भी शिरकत की।

एसडीजी का प्रतिनिधित्व करने वाले निति आयोग में इनोवेशन हब के विशेष सचिव यदुवेन्द्र माथुर ने अपने उद्घाटन सत्र में लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए निगरानी और डाटा जनरेशन के जरिए नजर रखने पर जोर दिया।

रिसर्च ऐन्ड इंफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के फैलो, प्रोफेसर अमिताभ कुंदु ने भारत में विकास की जरूरतों की समझ को और गहरा किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कई स्तरों पर अभी भी गरीबी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आक्सफाम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि एसडीजी के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोएक्टिव राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है।

समापन सत्र में अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के एसिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी डा मनोज नारदेव सिंह के संबोधन के बाद इसमें हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट बांटे गए।

चर्चा में जामिया की प्रोफेसर हलीमा सादिया रिज़वी, जेएनयू के प्रो संतोष मल्होत्रा, एसडीजी की सीनियर प्रोग्राम आफिसर राधिका मधुर, नेशनल फाउंडेशन फार इंडिया के अजय झा, डायरेक्टर बजट अनालिसिस राजस्थान सेंटर के डा निसार अहमद और आईसीआरआईआईआर के प्रोजेक्ट लीड डा अली मेहदी ने हिस्सा लिया।

इसमें हिस्सा लेने वालों में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर कौशिक गांगुली, अंबेडकरी विश्वविद्यालय के डा सोमिक चौधरी, आक्सफाम इंडिया के त्रिरंजन राधाकृष्णन शामिल हैं। इनके

अलावा एनी नामला , डा मंजूर अली, डा अशरफ इलियान, डा जावेद आलम खान और अब्दुल राशीद अगवान ने भी हिस्सा लिया।

उद्घाटन सत्र के अंत में जामिया के अर्थशास्त्र विभाग के छात्रों द्वारा बनाई गई सीडी ऑफ इ जरनल जारी की गई।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक